

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 132] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28, 1979/वैशाख 8, 1901
No. 132] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28, 1979/VAISAKHA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1979

सा. का. नि. 273(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, तूलीकारिण पत्तन के लिए गाँठित न्यासियों के प्रथम बोर्ड में एल.इ.ए. द्वारा श्री एम. वोक्कलिंगम को तूलीकारिण पत्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी के रूप में और सर्वश्री पी.एस.टी.एम. तिरुविचयल नाडार और बंगारू लक्ष्मण को अन्य संबंधितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासियों के रूप में नियुक्त करती हैं और भाग्य सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन

पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 93 (ई), दिनांक पहली मार्च, 1979 में निम्न-लिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 12 और तत्संबंधी प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—

- "13. श्री एम. चॉकलिंगम
(पत्तन में कार्य कर रहे श्रमिकों के प्रतिनिधि)
14. श्री पी. एस. टी. एस. तिरुविचरत्न नाडार
(अन्य संबंधितों के प्रतिनिधि)
15. श्री बंगारु लक्ष्मण
(अन्य संबंधितों के प्रतिनिधि)" ।

[फा. स. पी. टी. बी-16/78]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 1979

G.S.R. 273(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby appoints Shri M. Chockalingam, as a Trustee representing the labour employed in the Port of Tuticorin and Sarvashri P.S.T.S. Thiraviaratna Nadar and Bangaru Lakshman, as Trustees representing other interests, on the first Board of Trustees constituted in respect of the Port of Tuticorin and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 93(E), dated the 1st March, 1979, namely :—

In the said notification, after Serial Number 12 and the entry relating there'o, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely :—

- "13. Shri M. Chockalingam
(representing the labour employed in the Port)
14. Shri P.S.T.S. Thiraviaratna Nadar
(representing the other interests)
15. Shri Bangaru Lakshman
(representing the other interests)"

[F. No. PTB-16/78]

D. K. JAIN, Joint Secy.